

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-56/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत नया बाराद्वार, जिला-जांजगीर-चांपा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. नगर पंचायत नया बाराद्वार को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
1.	महात्मा गाँधी वार्ड
2.	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3.	श्री राम मंदिर वार्ड
4.	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
5.	दुर्गा मंदिर वार्ड
6.	पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7.	काली मंदिर वार्ड
8.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
9.	सरदार भगत सिंह वार्ड
10.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
11.	इंदिरा गाँधी वार्ड
12.	गुरु घासीदास वार्ड
13.	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
14.	राजा हरिगुजर वार्ड
15.	ठाकुरदेव मंदिर वार्ड

नगर पंचायत नया बाराद्वार के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 (महात्मा गाँधी वार्ड)

उत्तर	दुरपा ग्राम की राजस्व सीमा एवं छात्रावास होते हुए झूलबाई घर होते हुए रामनारायण शर्मा घर तक ।
पूर्व	रामनारायण शर्मा घर से वार्ड क्रमांक 02 की सीमा होते हुए गोकुल डहरिया घर से चतुर सिंग पटवारी, राधेश्याम राठौर घर से लाखनसाव बिल्डिंग तक ।
दक्षिण	लाखनसाव बिल्डिंग होते हुए रेल्वे लाईन के सहारे चलते हुए पश्चिम केबीन को शामिल करते हुए सरहर ग्राम के राजस्व सीमा के मिलान तक ।
पश्चिम	पश्चिम केबीन से सरहर ग्राम की राजस्व सीमा से उत्तर की ओर दुरपा ग्राम की राजस्व सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 02 (रानी लक्ष्मीबाई वार्ड)

उत्तर	नया बाराद्वार एवं दुरपा ग्राम की राजस्व सीमा को मिलान करते हुए सहोद्रा महंत घर तक ।
पूर्व	सहोद्रा महंत घर से साप्ताहिक बाजार होते हुए गौरीशकर शर्मा घर से कपूर दुकान तक ।
दक्षिण	कपूर दुकान से रेल्वे लाईन की सीमा होते हुए, रेल्वे कॉलोनी से राईसमिल से रामशरण यादव घर तक ।
पश्चिम	रामशरण यादव घर से सनत टंडन घर से प्राथमिक शाला होते हुए नया बाराद्वार एवं दुरपा ग्राम की राजस्व सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 03 (श्री राम मंदिर वार्ड)

उत्तर	दुरपा ग्राम एवं सरवानी ग्राम की राजस्व सीमा होते हुए माईनर नहर से मोहित यादव घर तक।
पूर्व	मोहित यादव घर से सुकलाल कॅवट घर होते हुए रामगरीब घर तक।
दक्षिण	रामगरीब घर से बिजली आफिस होते हुए दिलीप अग्रवाल घर तक।
पश्चिम	दिलीप अग्रवाल घर से एफ.सी.आई गोदाम होते हुए अवसर पब्लिक स्कूल से दुरपा ग्राम एवं सरवानी ग्राम की राजस्व सीमा तक।

वार्ड क्रमांक 04 (सुभाष चन्द्र बोस वार्ड)

उत्तर	सरवानी ग्राम की राजस्व सीमा से ननकी बाई यादव घर से मंगल भवन होते हुए शंकरदास मानिकपुरी घर तक।
पूर्व	शंकरदास मानिकपुरी घर से श्रीवास लाईनमेन घर तक होते हुए छोटे लाल यादव घर तक।
दक्षिण	छोटे लाल यादव घर से रेल्वे लाईन की ओर मनहरण दास महंत घर से बंशी थवाईत घर तक।
पश्चिम	बंशी थवाईत घर से जगदीश अग्रवाल घर होते हुए बिजली आफिस से सरवानी ग्राम की राजस्व सीमा तक।

वार्ड क्रमांक 05 (दुर्गा मंदिर वार्ड)

उत्तर	बिमल चौबे दुकान से रेल्वे लाईन होते हुए संजय केडिया घर से लक्ष्मी राठौर घर तक।
पूर्व	लक्ष्मी राठौर घर से सकरेली ग्राम की राजस्व सीमा होते हुए राधामोहन राय काम्पलेक्स से अजय ट्रेडर्स तक।
दक्षिण	अजय ट्रेडर्स से डुमरपारा ग्राम की राजस्व सीमा होते हुए पवन मोदी से गोकुल सिंह घर होते हुए गौरव फेब्रीकेशन तक।
पश्चिम	गौरव फेब्रीकेशन से अजय महावीर घर होते हुए पवन मोदी घर से बिमल चौबे दुकान तक।

वार्ड क्रमांक 06 (पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड)

उत्तर	लालजी भैना दुकान से पेट्रोल पम्प होते हुए मनोज अग्रवाल घर तक।
पूर्व	मनोज अग्रवाल घर से रायगढ़ राईसमिल तक।
दक्षिण	रायगढ़ राईसमिल से ग्राम पलाड़ीकला की राजस्व सीमा होते हुए छोटे लाल साहू घर तक।
पश्चिम	छोटे लाल साहू घर से वार्ड क्रमांक 15 की सीमा होते हुए लालजी भैना दुकान तक।

वार्ड क्रमांक 07 (काली मंदिर वार्ड)

उत्तर	राजेश शर्मा घर से वार्ड क्रमांक 08 की सीमा होते हुए संतोष मोदी घर तक।
पूर्व	संतोष मोदी घर से वार्ड क्रमांक 05 की सीमा होते हुए हनुमान मंदिर (नेहरू चौक) तक।
दक्षिण	हनुमान मंदिर (नेहरू चौक) से नगर पंचायत शापिंग काम्पलेक्स होते हुए बिसाहू अग्रवाल घर तक।
पश्चिम	बिसाहू अग्रवाल घर से शासकीय कन्याशाला होते हुए अशोक शर्मा होते हुए विनोद अग्रवाल एवं राजेश शर्मा घर तक।

वार्ड क्रमांक 08 (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड)

उत्तर	रेल्वे लाईन से रेल्वे स्टेशन होते हुए रेल्वे क्रासिंग तक।
पूर्व	रेल्वे क्रासिंग से वार्ड क्रमांक 05 की सीमा होते हुए मोहन लाल भण्डारी घर से मनोज (शक्तिहा) घर तक।
दक्षिण	मनोज शक्तिहा घर से वैशाली साड़ी सेंटर तक एवं जुक्तिघार घर से गनपत सिदार घर तक।
पश्चिम	गनपत सिदार घर से रेल्वे लाईन तक।

वार्ड क्रमांक 09 (सरदार भगत सिंह वार्ड)

उत्तर :-	रेल्वे लाईन होते हुए जगरानी देवी महाविद्यालय तक।
पूर्व :-	जगरानी देवी महाविद्यालय से नवल बरेठ घर तक।
दक्षिण :-	नवल बरेठ घर से जिला सहकारी बैंक, तहसील कार्यालय होते हुए अमोल बरेठ घर तक।
पश्चिम	अमोल बरेठ घर से लखन खुंटे घर होते हुए अनंदराम घर तक एवं तुलसी प्रसाद खुर्से घर से रेल्वे लाईन तक।

वार्ड क्रमांक 10 (चन्द्रशेखर आजाद वार्ड)

उत्तर	राजेश सनेही घर से जैन ज्वेलर्स होते हुए महावीर सिंग घर तक।
पूर्व	महावीर सिंग घर से वार्ड क्रमांक 07 की सीमा होते हुए विशाल पबार घर से अन्नपूर्णा होटल तक।
दक्षिण	अन्नपूर्णा होटल से गुप्ता ढाबा होते हुए अंबेडकर चौक तक।
पश्चिम	अंबेडकर चौक से बजरंग अग्रवाल घर एवं ओमप्रकाश श्रीवास घर से चितरंजन पटेल घर तक तथा रामावतार अग्रवाल घर से राजेश सनेही घर तक।

वार्ड क्रमांक 11 (इंदिरा गाँधी वार्ड)

उत्तर	रमेश सूर्यवंशी घर से नवीन नगर पंचायत कार्यालय भवन होते हुए सिंचाई कालोनी के अंदर से तेरस पटेल घर तक।
पूर्व	तेरस पटेल घर से अमेलाल बरेठ घर तक।
दक्षिण	अमेलाल बरेठ घर से रेस्ट हाऊस, थाना होते हुए खीकबाई सतनामी घर तक।
पश्चिम	खीकबाई सतनामी घर से ओमप्रकाश घर होते हुए रमेश सूर्यवंशी घर तक।

वार्ड क्रमांक 12 (गुरु घासीदास वार्ड)

उत्तर	धानबाई घर से तेजप्रकाश रात्रे घर होते हुए मोहन लाल रात्रे घर तक।
पूर्व	मोहन लाल रात्रे घर से वार्ड क्र. 11 की सीमा होते हुए रामलखन रत्नाकर घर तक।
दक्षिण	रामलखन रत्नाकर घर से एच.पी.गैस होते हुए देवकी नंदन घर तक।
पश्चिम	देवकी नंदन घर से जूना तालाब होते हुए धानबाई घर तक।

वार्ड क्रमांक 13 (डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड)

उत्तर	भागोडीह की राजस्व सीमा होते हुए इंदिरा सागर स्कूल से सहेत्तर कुर्रे घर तक।
पूर्व	सहेत्तर कुर्रे घर से वार्ड क्रमांक 09 एवं 11 की सीमा होते हुए रामाधीन घर तक।
दक्षिण	रामाधीन घर से रामचरण खाण्डे घर होते हुए ठंडाराम घर तक।
पश्चिम	ठंडाराम घर से पिताम्बर सूर्यवंशी घर होते हुए मानदास घर से भागोडीह की राजस्व सीमा होते हुए इंदिरा सागर स्कूल तक।

वार्ड क्रमांक 14 (राजा हरिगुजर वार्ड)

उत्तर	भागोडीह ग्राम की राजस्व सीमा होते हुए गणेश राम सूर्यवंशी घर तक।
पूर्व	गणेश राम सूर्यवंशी घर से देवप्रसाद बरेठ घर तक।
दक्षिण	देव प्रसाद बरेठ घर से गंगाराम बरेठ घर तक।
पश्चिम	गंगाराम बरेठ घर से भागोडीह ग्राम की राजस्व सीमा तक।

वार्ड क्रमांक 15 (ठाकुरदेव मंदिर वार्ड)

उत्तर	संतलाल बरेठ घर से वार्ड क्रमांक 14 की सीमा होते हुए संतोष बरेठ घर तक।
पूर्व	संतोष बरेठ घर से वार्ड क्रमांक 12 की सीमा होते हुए नेशनल हाईवे पारकर शारदा भानू घर तक।
दक्षिण	शारदा भानू घर से डबरापारा होते हुए नया बस स्टैण्ड से मनहरण साहू घर तक।
पश्चिम	मनहरण साहू घर से रिस्दा ग्राम की राजस्व भूमि होते हुए सुंदर लाल साहू घर से संतलाल बरेठ घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, उप सचिव

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019.

क्रमांक एफ 01-56/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-56/2019/18 दिनांक 12/07/2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

No. F1-56/2019/18.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Chhattisgarh Municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of **Nagar Panchayat Naya Baradwar Dist janjgir Champa** as per schedule given Below :-

1. Divides **Nagar Panchayat Naya Baradwar** into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

Ward No.	Ward Name
1	Mahatma Gandhi ward
2	Rani Laxmi bai ward
3	Shri Ram mandir ward
4	Subhash chandra boss ward
5	Durga mandir ward
6	Pt. Jawahar lal nehru ward
7	Kali mandir ward
8	Dr. Rajendra prasad ward
9	Sardar Bhagat singh ward
10	Chandra shekhar azad ward
11	Indira Gandhi ward
12	Guru Ghasidas ward
13	Dr. Bhimrao ambedkar ward
14	Raja hari gujar ward
15	Thakur dev mandir ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Naya Baradwar**WARD NUMBER 01, (MAHATMA GANDHI WARD)**

- NORTH :-** From revenue boundary of Durpa village and passing through hostel including Jhul bai's house upto Ramnarayan Sharma's house.
- EAST :-** From Ramnarayan Sharma's house passing through boundary of ward no 02, house of Gokul Dahariya upto house of chatur singh patwari, from house of Radheshyam Rathore to Lakhan Sao building.
- SOUTH :-** From Lakhan sao builing passing through railway line including west cabin upto revenue boundary of Sarhar village .
- WEST :-** From west cabin including sarhar village boundary upto the boundary of durpa village.

WARD NUMBER 02, (RANI LAXMI BAI WARD)

- NORTH :-** Joining revenue boundry of naya baradwar and durpa village upto house of sahondra mahant.
- EAST :-** From Sahondra Mahant's house, passing through weekly market and Gaurishankar Sharma's house up to kapur's shop.
- SOUTH :-** From Kapur's shop touching boundry of railway line and passing through railway colony via ricemill up to house of Ramsharan yadav.
- WEST :-** From Ramsharan Yadav's house to Sanat's house via primary school upto revenue boundary of naya baradwar and durpa village.

WARD NUMBER 03, (SHRI RAM MANDIR WARD)

- NORTH :-** From revenue boundry of durpa village and sarwani village towards minor çannel upto the house of mohit yadav.
- EAST :-** From the house of Mohit Yadav via house of Suklal Kewat upto house of Ramgarib.
- SOUTH :-** From house of Ramgarib through electric office upto Dilip Agrawal's house.
- WEST :-** From the Dilip Agrawal's house via F.C.I. Godown and avsar public school upto the revenue boundary of village durpa and sarhar.

WARD NUMBER 04, (SUBHASH CHANDRA BOSS WARD)

- NORTH :-** From revenue boundry of sarwani village and Nanki Bai Yadav's house from passed to Mangal Bhawan upto the house of Shankar Das Manikpuri.
- EAST :-** From the house of Shankar Das Manikpuri via Shriwas electicial's house upto the house of Chhote Lal Yadav.

SOUTH :- From the house of Chhote Lal Yadav towards railway line via Manharan Das Mahant's house upto house of Banshi Thawait.

WEST :- From the house of Banshi Thawait to Jagdish Agrawal's house via electric office upto the revenue boundry of sarwani village.

WARD NUMBER 05, (DURGA MANDIR WARD)

NORTH :- From Vimal Choubey's shop via railway line including Sanjay Kediya house upto house of Laxmi Rathore.

EAST :- From the house of Laxmi Rathore via the revenue boundary of sakreli village including Radhamohan rai complex upto ajay traders.

SOUTH :- From Ajay traders to revenue boundary of dumar para village via Pawan Modi (fly ash brics) and house of Gokul Singh upto Gaurav fabrication.

WEST :- From Gaurav fabrication via house of ajay Mahavir and Pawan Modi Vimal Choubey's shop.

WARD NUMBER 06, (Pt. JAWAHAR LAL NEHRU WARD)

NORTH :- From the shop of Lalchand Bhaina via petrol pump upto Manoj's house (kerosene oil dealer).

EAST :- From Manoj's house (kerosene oil dealer) upto raigarh ricemill.

SOUTH :- From raigarh raicemill via revenue boundary of village paladikala upto house of Chhote lal sahu.

WEST :- From house of Chhotelal Sahu via ward no 15 upto shop of Lalji Bhaina.

WARD NUMBER 07, (KALI MANDIR WARD)

NORTH :- From the house of Rajesh Sharma passing through boundary of ward no 08 upto house of Santosh Modi.

EAST :- From the house of Santosh Modi via boundary of ward no 05, upto Hanuman Mandir (nehru chowk).

SOUTH :- From Hanuman Mandir via shopping complex upto the house of Bisahu.

WEST :- From the house of Bisahu via government girls school and passing through Ashok Sharma house and Vinod Agrawal's house upto Rajesh Sharma's house.

WARD NUMBER 08, (Dr. RAJENDRA PRASAD WARD)

- NORTH :-** From railway line via railway station upto railway crossing.
- EAST :-** From railway crossing via boundry of ward no 05 and house of Mohan Bhandari upto house of Manoj (saktiha).
- SOUTH :-** From the of Manoj Shaktiha's house to Vaishali sari center and house of Juktiyar upto house of Ganpat Sidar.
- WEST :-** From the house of Ganpat Sidar to railway line

WARD NUMBER 09, (SARDAR BHAGAT SINGH WARD)

- NORTH :-** From railway line upto Jagrani Devi collage.
- EAST :-** From Jagrani Devi collage to house of Naval Bareth.
- SOUTH :-** From the house of Naval Bareth to co-operative bank via tehsil office upto house of Amol Bareth.
- WEST :-** From the house of Amol Bareth via Lakhani Khunte, Anand Ram's house and house of Tulsi Prasad Khurse upto railway line.

WARD NUMBER 10, (CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD)

- NORTH :-** From the house of Rajesh Snehi via Jain jewellers upto house of Mahavir Singh.
- EAST :-** From house of Mahavir Singh via boundary of ward no 07 and house of Vishal Pawar upto Annapurna hotel.
- SOUTH :-** From Annapurna hotel via Gupta dhaba upto Ambedkar chowk.
- WEST :-** From Ambedkar chowk via Bajrang Agrawal's house and house of Omprakash to Chitrangan Patel's house and house of Ramavtar Agrawal upto house of Rajesh Snehi.

WARD NUMBER 11, (INDIRA GANDHI WARD)

- NORTH :-** From the house of Ramesh Suryawanshi via new nagar panchayat office, irrigation colony upto house to Teras Patel.
- EAST :-** From the house of Teras Patel to house of Amme Lal Bareth.
- SOUTH :-** From the house of Amme Lal Bareth via rest house, police station upto house of Khikbai Satnami.
- WEST :-** From the house of Khikbai Satnami via house of omprakash upto house of Ramesh Suryawanshi.

WARD NUMBER 12, (GURU GHASIDAS WARD)

- NORTH :-** From the house of Dhan Bai via house of Tejprakash Ratre upto the house of Mohan Lal Ratre.

- EAST :-** From house of Mohan Lal Ratre via boundary of ward no 11 upto house of Ram Lakhan Ratnakar.
- SOUTH :-** From the house of Ram Lakhan Ratnakar via H.P. gas upto house of Devki Nandan.
- WEST :-** From the house of Devki Nandan via Juna pond upto the house of Dhan Bai.

WARD NUMBER 13, (Dr. Bhimrao Ambedkar WARD)

- NORTH :-** From the revenue boundary of bhagodih via indira sagar school upto Sahettar Kurre's house.
- EAST :-** From Sahettar Kurrey house to boundary of ward no 09 and 11 via house of ramadhin.
- SOUTH :-** From house of Ramadhin via house of Ramcharan Khandey upto house of Thandaram.
- WEST :-** From house of Thandaram via house of Pitamber Suraywanshi and house of Mandas to revenue boundary of bhagodih upto Indira Sagar school.

WARD NUMBER 14, (RAJA HARI GUJAR WARD)

- NORTH :-** From the revenue boundary of bhagodih village to house of Ganesh Ram Suryawanshi.
- EAST :-** From house of Ganesh Ram Suryawanshi to house of Devprasad Bareth.
- SOUTH :-** From the house of Devprasad Bareth to house of Gangaram Bareth.
- WEST :-** From house of Gangaram Bareth to revenue boundary of village bhagodih.

WARD NUMBER 15, (THAKUR DEV MANDIR WARD)

- NORTH :-** From the house of Santlal Bareth via boundary of ward no 14 upto house of Santosh Bareth.
- EAST :-** From the house of Santosh Bareth via ward no 12 by crossing national highway upto house of Sharda Bhanu.
- SOUTH :-** From the house of Sharda Bhanu via dabra para from bus stand upto house of Manharan Sahu.
- WEST :-** From the house of Manharan Sahu via revenue boundary of village Risda and house of Sundar Lal Sahu upto house of Santlal Bareth.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.